



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940

No. 817]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

सं 1/2018 (माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति)

सा.का.नि. 1116(अ).—माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के निम्नलिखित अधिनियमों को अधिसूचित करती है जिनके तहत विनिर्दिष्ट करों को माल और सेवा कर में शामिल किया जा रहा है:—

केंद्र सरकार के अधिनियम:-

- (1) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- (2) औषधीय एवं प्रसाधन-पदार्थ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16)

राज्य सरकारों के अधिनियम:-

तालिका

1.	आंध्र प्रदेश	
क्र. सं.	कर का प्रकार	अधिनियम का नाम
(1)	(2)	(3)
1	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन।	आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005

2	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 (ii) आंध्र प्रदेश धुड़दौड़ और सट्टेबाजी कर विनियम 1358 च (iii) आंध्र प्रदेश विलासिता पर कर अधिनियम, 1987
3	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) आंध्र प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1996 (ii) आंध्र प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2001
4	राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टियों 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अंतर्गत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अधिनियम, 1996
5	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	(i) आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 [धारा 14] जहां तक यह हैदराबाद नगर निगम अधिनियम 1955 की धारा 197 की उपधारा (1) की धारा (च) के संबंध में है (ii) आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1965 [धारा 114] (iii) आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1944 [धारा 63]
2 अरुणाचल प्रदेश		
(1)	(2)	(3)
6	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	अरुणाचल प्रदेश माल कर अधिनियम, 2005
7	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	अरुणाचल प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2010
8	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	अरुणाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 2007, [धारा 129 की उपधारा (1) का खंड (च)]
2 असम		
(1)	(2)	(3)
9	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 यथा संशोधित
10	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास,	(i) असम मनोरंजन एवं सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1939

	सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(ii) असम विलासिता (होटल एवं लॉजिंग हाउसेज और अस्पताल) पर कर अधिनियम, 1989
11	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) असम प्रवेश कर अधिनियम, 2008 (ii) गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम, 1971 [धारा 144 की उपधारा (2) की खंड (झ)]
12	राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की तत्कालीन प्रविष्टियों 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अंतर्गत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	असम स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं सेवा विकास निधि अधिनियम, 2009
13	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम, 1971 [धारा 144 की उपधारा (1) की खंड (घ)]
4 बिहार		
(1)	(2)	(3)
14	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005
15	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ii) बिहार होटल विलासिता कराधान अधिनियम, 1988
16	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	बिहार स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश, उनके उपयोग या बिक्री पर कर अधिनियम, 1993
17	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007
5 छत्तीसगढ़		
(1)	(2)	(3)
18	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005
19	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (ii) छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम, 1988
20	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन	छत्तीसगढ़ प्रदेश कर अधिनियम,

	प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	1976
6 दिल्ली		
(1)	(2)	(3)
21	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004
22	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) दिल्ली मनोरंजन एवं सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1996 (ii) दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996
23	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	(i) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, [धारा 113, धारा 142 की उपधारा (1) की धारा (ग), धारा 153 का उपधारा (1) और पांचवी अनुसूची] (ii) दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद अधिनियम, 1994 [धारा 60 की उपधारा (1) का खंड (घ)]
7 गोवा		
(1)	(2)	(3)
24	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	गोवा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005
25	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) गोवा मनोरंजन कर अधिनियम, 1964 (ii) गोवा विलासिता कर अधिनियम, 1988
26	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) गोवा माल प्रवेश कर अधिनियम, 2000 (ii) गोवा पंचायती राज अधिनियम, 1994 [धारा 153 के उपखंड (3) की धारा (इ)] (iii) गोवा नगर पालिका अधिनियम, 1968 [धारा 104 की धारा (झ)]
27	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	(i) गोवा पंचायत राज अधिनियम, 1994 [धारा 153 की उपधारा (3) का धारा (ग)]

		(iii) गोवा नगर पालिका अधिनियम, 1968 [धारा 10 के उपधारा (1) का खंड (घ)]
8 गुजरात		
(1)	(2)	(3)
28	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
29	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, 1977 (ii) गुजरात विलासिता (होटल एवं लॉजिंग हाउसेज) कर अधिनियम 1977
30	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) गुजरात स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2001
9 हरियाणा		
(1)	(2)	(3)
31	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
32	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) पंजाब मनोरंजन कर अधिनियम, 1955 (ii) हरियाणा विलासिता कर अधिनियम 2007
33	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम, 2008
34*	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 88 और धारा 121 की उपधारा (1) का खंड (झ)]
10 हिमाचल प्रदेश		
(1)	(2)	(3)
35	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005
36	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या	(i) हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (सिनेमेटोग्राफ शॉज) अधिनियम, 1968

	अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(ii) हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1968 (ii) हिमाचल प्रदेश विलासिता (होटल एवं लॉजिंग हाउसेज) कर अधिनियम, 1979
37	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश कर अधिनियम, 2010
11 जम्मू और कश्मीर		
(1)	(2)	(3)
38	सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर और विक्री कर	(i) जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (ii) जम्मू और कश्मीर सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1962
39	मनोरंजन कर	(i) जम्मू और कश्मीर मनोरंजन कर (सिनेमेटोग्राफिक शोज) अधिनियम, 1962 (ii) जम्मू और कश्मीर मनोरंजन कर अधिनियम, 2016
40	प्रवेश कर	जम्मू और कश्मीर में वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1962
41	विक्रय कर पर अधिभार	जम्मू और कश्मीर सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1962
42	विज्ञापन कर	जम्मू और कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000, [धारा 66 की उपधारा (1) का खंड (ix)]
12 झारखंड		
(1)	(2)	(3)
43	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	झारखंड मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005
44	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर बसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) झारखंड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 (ii) झारखंड होटल विलासिता कराधान अधिनियम, 2011
45	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	झारखंड वस्तु उपभोग या उपयोग पर प्रवेश कर अधिनियम, 2011
46	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	झारखंड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012
13 कर्नाटक		
(1)	(2)	(3)
47	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित	(i) कर्नाटक मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2003

	कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(ii) कर्नाटक विक्रय कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गन्ने पर उदग्रहण और क्रय कर एकत्रीकरण संबंधी प्रावधान
48	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) कर्नाटक मनोरंजन कर अधिनियम, 1958 (ii) मैसूर सट्टेबाजी कर अधिनियम 1932 (iii) कर्नाटक विलासिता कर अधिनियम, 1979 (iv) कर्नाटक लॉटरी कर अधिनियम 2004
49	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) कर्नाटक वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1979 (ii) कर्नाटक विशेष प्रवेश कर अधिनियम, 2002
14 केरल		
(1)	(2)	(3)
50	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	केरल मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2003
51	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर वसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) केरल पेपर लॉटरी कर अधिनियम, 2005 (ii) केरल विलासिता कर अधिनियम, 1976
52	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) केरल स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1994
53	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	(i) केरल नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 271] (ii) केरल पंचायती राज अधिनियम, 1994 [धारा 209]
54	राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II की तत्कालीन प्रविष्टियों 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अंतर्गत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) केरल वित्त अधिनियम, 2001 के खंड 10 द्वारा लागू आवश्यक जरूरत उपकर (ii) केरल वित्त अधिनियम, 2011 के खंड 10 द्वारा लागू मांगल्य निधि उपकर (iii) केरल कर पर उपकर अधिनियम, 1957, [धारा 3 (1क) और 3 (1कक)]
15 मध्य प्रदेश		
(1)	(2)	(3)
55	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति)	मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002

	अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	
56	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर बसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन आमोद एव विज्ञापन कर अधिनियम, 2011
57	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976
58	राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II की तत्कालीन प्रविष्टियों 52,54,55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अंतर्गत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 [भाग-III "वन विकास उपकर" धारा 6 और 7]
16 महाराष्ट्र		
(1)	(2)	(3)
59	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) महाराष्ट्र मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002 (ii) महाराष्ट्र गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1962 (iii) महाराष्ट्र वन विकास (सरकार या वन विकास निगम द्वारा वन उपज के विक्रय पर कर) अधिनियम, 1983
60	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर बसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कर अधिनियम, 1923 (ii) महाराष्ट्र लॉटरी पर कर अधिनियम, 2006 (iii) महाराष्ट्र सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1925 (iv) महाराष्ट्र विलासिता पर कर अधिनियम, 1987
61	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर कर अधिनियम, 2002 (ii) मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888, [धारा 139 का उप खंड 4] (iii) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 [धारा 127 की उप धारा 2 का खंड (क), (कक) तथा (ककक)] (iv) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्र में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1987
62	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए विज्ञापन पर कर या अन्य कोई कर	(i) महाराष्ट्र विज्ञापन कर अधिनियम, 1967 (ii) मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888, [धारा 139 की उप धारा 3]

		(iii) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 [धारा 127 की उपधारा 2 का धारा (घ)]
17 मणिपुर		
(1)	(2)	(3)
63	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) का भूतपूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा वसूला गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	मणिपुर मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2004
64	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा मनोरंजन, विलास, सट्टेबाजी और जुआ पर बसूले गए करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शुद्ध अपवर्जन	(i) असम आमोद एवं सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1936 (यथा मणिपुर को स्थानान्तरित) (ii) मणिपुर विलासिता (होटल व लॉजिंग हाउसेज) कर अधिनियम, 2000
65	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	मणिपुर नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 75 की उप धारा (1) का खण्ड ग]
66	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	मणिपुर नगर-पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 75 की उप धारा (1) का खण्ड (i)]
18. मेघालय		
(1)	(2)	(3)
67	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किया गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) मेघालय मूल्य वर्धित कर, 2003 (ii) मेघालय (मोटर स्प्रिट सहित पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कराधान अधिनियम 1973 (मेघालय द्वारा अपनाए गए अनुसार असम अधिनियम 1956 का IX जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए माल के संबंध के अलावा)
68	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) मेघालय मनोरंजन एवं सट्टेबाजी कर अधिनियम 1973 (मेघालय द्वारा अपनाए गए एवं संशोधित किए गए अनुसार 1939 का असम अधिनियम सं०6) (ii) विलासिता पर मेघालय कर (होटल एवं लौजिंग आवास) अधिनियम, 1991
69	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) मेघालय सीमेंट उपकर अधिनियम, 2010 (ii) मेघालय खंगर उपकर अधिनियम, 2015
19 मिज़ोरम		
(1)	(2)	(3)

70	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किया गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) मिज़ोरम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (ii) मिज़ोरम (मोटर स्पिरिट एवं लुब्रिकेंट्स सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की विक्री) कराधान अधिनियम, 1973
71	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) मिज़ोरम मनोरंजन कर अधिनियम, 2013
72	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) मिज़ोरम प्रविष्टि कर अधिनियम, 2015
20 नागालैंड		
(1)	(2)	(3)
73	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किया गया मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) नागालैंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (ii) नागालैंड मोटर स्पिरिट एवं लुब्रिकेंट्स आदि सहित पेट्रोलियम और उसके उत्पादों की विक्री कराधान अधिनियम, 1967 (जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए माल के संबंध के अलावा)
74	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	नागालैंड मनोरंजन कर अधिनियम, 1965
75	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	नागालैंड प्रविष्टि कर अधिनियम, 2013
21 ओडिशा		
76	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) ओडिशा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004 (ii) ओडिशा वन विकास (सरकार अथवा ओडिशा वन विकास निगम द्वारा वन उत्पाद के विक्रय पर कर) अधिनियम, 2003
77	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) ओडिशा मनोरंजन कर अधिनियम, 2005 (ii) ओडिशा विलासिता कर अधिनियम, 1995

78	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	ओडिशा प्रविष्टि कर अधिनियम, 1999
79	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 2003 [धारा 242] (ii) ओडिशा नगर पालिका अधिनियम, 1950 [धारा 131 की उपधारा (1) का खण्ड (ड.)]
22 पुडुचेरी		
(1)	(2)	(3)
80	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	पुडुचेरी मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2007
81	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	पुडुचेरी नगर पालिका अधिनियम, 1973 [धारा 118 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का उपखण्ड (iii)]
82	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	पुडुचेरी गन्ना विकास एवं उपकर की उगाही अधिनियम, 1965
23 पंजाब		
(1)	(2)	(3)
83	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	पंजाब मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005
84	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (ii) पंजाब लॉटरी कर अधिनियम, 2005 (iii) पंजाब मनोरंजन कर (सिनेमैटोग्राफ) अधिनियम, 1954 (iv) पंजाब विलासिता कर अधिनियम, 2009
85	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) माल की स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्टि पर पंजाब कर अधिनियम, 2000 (ii) पंजाब नगर-निगम अधिनियम, 1976 [धारा 90 की उपधारा (1) का खण्ड (ख) और धारा

		113]
86	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976, [धारा 90 की उपधारा (1) का खण्ड (घ)]
87	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	पंजाब अवसंरचना (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002
24 राजस्थान		
(1)	(2)	(3)
88	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 (संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में शामिल माल के संबंध में, के अलावा)
89	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (ii) राजस्थान विलासिता कर (होटल एवं लॉजिंग आवास में) अधिनियम, 1990 (iii) राजस्थान विलासिता कर, (तम्बाकू एवं उसके उत्पाद) अधिनियम, 1994
90	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) स्थानीय क्षेत्रों में माल की प्रविष्टि पर राजस्थान कर अधिनियम, 1999 (ii) स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों की प्रविष्टि पर राजस्थान कर अधिनियम, 1988 (iii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (धारा 65 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख))
91	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (धारा 102 की उपधारा (1) का खण्ड (ड.))
92	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 [अध्याय XI (अवसंरचना विकास उपकर)] (धारा 54 से 61, दोनों समेत)
25 सिक्किम		
(1)	(2)	(3)
93	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा	(i) सिक्किम मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (ii) सिक्किम बिक्री कर अधिनियम, 1983

	उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करें सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	
94	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) सिक्किम पारिस्थिकी निधि एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005 (ii) सिक्किम परिवहन अवसंरचना विकास निधि (एस टी आई डी एफ) अधिनियम, 2004
26 तमिलनाडु		
(1)	(2)	(3)
95	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करें सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	तमिलनाडु मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2006
96	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 (ii) तमिलनाडु सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1935 (iii) तमिलनाडु विलासिता कर अधिनियम, 1939
97	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों की प्रविष्टि पर तमिलनाडु कर अधिनियम, 1990 (ii) स्थानीय क्षेत्रों में माल की प्रविष्टि पर तमिलनाडु कर अधिनियम, 2001 (iii) चेन्नै नगर निगम अधिनियम, 1919 धारा 98 का खण्ड (च)
98	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) चेन्नै नगर निगम अधिनियम, 1919 (धारा 129 क) (ii) तमिलनाडु जिला नगर पालिका अधिनियम, 1920 [धारा 78 में खण्ड (घघ)] (iii) मदुरै नगर निगम अधिनियम, 1971 [धारा 157 और धारा 115 में खण्ड (ड.)] (iv) कोयम्बतूर नगर निगम अधिनियम, 1981 [धारा 117 में खण्ड (ड.)] (v) तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 [धारा 172-क] (vi) तमिलनाडु विज्ञापन कर अधिनियम, 1983
99	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं	तमिलनाडु गन्ना उपकर (विधिमन्यकरण) अधिनियम, 1963

	सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	
27 तेलंगाना		
(1)	(2)	(3)
100	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	तेलंगाना मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005
101	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) तेलंगाना मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 (ii) तेलंगाना घुड़दौड़ और बाजी कर विनियमन, 1358 च (iii) तेलंगाना विलासिता कर अधिनियम, 1987
102	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों की प्रविष्टि पर तेलंगाना कर अधिनियम, 1996 (ii) स्थानीय क्षेत्रों में माल की प्रविष्टि पर तेलंगाना कर अधिनियम, 2001
103	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) तेलंगाना नगर निगम अधिनियम, 1994 (धारा 14) (ii) हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1995 [(धारा 197 की उपधारा (1) का खण्ड-(च)] (iii) तेलंगाना नगर पालिका अधिनियम, 1965 [धारा 114] (iv) तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम, 1994 [धारा 63]
104	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	तेलंगाना ग्रामीण विकास अधिनियम, 1996
28 त्रिपुरा		
(1)	(2)	(3)
105	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	त्रिपुरा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004

106	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) त्रिपुरा मनोरंजन कर अधिनियम, 1997 (ii) होटलों एवं लॉजिंग आवासों में विलासिता पर त्रिपुरा कर अधिनियम, 1990
107	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 192 की उपधारा (1) का खण्ड (ज)] (ii) त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 206]
108	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 192 की उपधारा (1) का खण्ड (ख)] (ii) त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम, 1994 [धारा 197]
29 उत्तर प्रदेश		
(1)	(2)	(3)
109	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2008 (ii) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 (iii) उत्तर प्रदेश कराधान एवं भूमि राजस्व कानून अधिनियम, 1975, अध्याय II (iv) मोटर स्पिरिट, डीज़ल तेल की संयुक्त पूरे देश में विक्रय और मद्य कराधान अधिनियम, 1939
110	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) उत्तर प्रदेश मनोरंजन एवं सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1979 (ii) उत्तर प्रदेश विलासिता कर अधिनियम, 1995
111	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	स्थानीय क्षेत्रों में माल की प्रविष्टि पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007
112	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (ii) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 [धारा 172 की उपधारा (2) का खण्ड (ज) और धारा 192 एवं 193] (iii) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 [धारा 128 की उपधारा (2) का खण्ड (vii)]
30 उत्तराखण्ड		
(1)	(2)	(3)
113	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005
114	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर	(i) उत्तराखण्ड मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1979 (ii) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान एवं भूमि

	या अन्य कोई कर	राजस्व कानून अधिनियम, 1975, [अध्याय II (धारा 2 से 13)] अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002
115	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) स्थानीय क्षेत्रों में माल की प्रविष्टि पर उत्तराखण्ड कर अधिनियम, 2008
116	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के तहत राज्य सरकार द्वारा उगाही करने योग्य कोई उपकर या अधिभार या शुल्क, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015
117	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 55 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा विज्ञापन पर उद्गृहीत किए गए कर या अन्य कोई कर	(i) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 [धारा 192 और धारा 172 की उपधारा 2(ज)] अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002 (ii) उत्तराखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 1981
31 पश्चिम बंगाल		
(1)	(2)	(3)
118	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 62 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत किए गए मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी और जुए पर करों सहित विलासिता पर कर या अन्य कोई कर, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपवर्जनों का निवल	(i) पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 (ii) पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994
119	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	(i) बंगाल मनोरंजन कर अधिनियम, 1992 (ii) पश्चिम बंगाल मनोरंजन व आमोद-प्रमोद कर अधिनियम, 1982 (iii) पश्चिम बंगाल मनोरंजन और विलासिता (होटल एवं रेस्टोरेंट) कर अधिनियम, 1972
120	संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्व प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रविष्टि कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या अन्य कोई कर	पश्चिम बंगाल स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2012

टिप्पण:

राज्यों की स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत किए गए विज्ञापन कर के संबंध में ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य के लेखाकार के पास आंकड़े उपलब्ध न हो वहां संबंधित राज्य सरकार के वित्त विभाग को माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (6) के अंतर्गत आधार वर्ष राजस्व का अनुमान लगाने के प्रयोजन हेतु संगृहीत राजस्व की राशि हेतु प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा।

पंजाब नगर पालिका निधि (पीएमएफ) और पंजाब नगर पालिका अवसंरचना विकास निधि (पीएमआईडीएफ) में बैट से हुए अंशदान के संबंध में इसे महा लेखाकार द्वारा बाहर रखा जाता है क्योंकि यह समेकित निधि में जमा नहीं किया जाता है, वित्त विभाग, पंजाब सरकार को प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. एस.31011/03/2014-एस.ओ.(एसटी)-भाग-4]

महेन्द्र नाथ, अवर सचिव